



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 9—अगस्त 15, 2008 (श्रावण 18, 1930)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 9—AUGUST 15, 2008 (SRAVANA 18, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2008

सं. आरएस./4/5(1)/2008/43-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने श्री राहुल नरेश जोशी को 25 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा सचिवालय में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नियमों के अधीन ग्राह्य सामान्य भर्तों के साथ अस्थायी कनिष्ठ संसदीय भाषान्तरकार (गुजराती) के रूप में नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560094, दिनांक 21 जुलाई 2008

सं. 5/1(1)/2008-1--अन्तरिक्ष विभाग के इससे उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिए गए पद और प्रत्येक के सामने दो गई तारीखों के अपराह्न से अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यभार छोड़ने की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	डॉ शंकर के एन	उत्कृष्ट वैज्ञानिक/निदेशक	31.05.2008
2.	नटाराजू बी एस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-बी	30.04.2008
3.	वेंकटरमण एस टी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-बी	30.04.2008
4.	मल्लिकार्जुन एच डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-बी	30.04.2008
5.	रम्या राव एस एस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	30.06.2008
6.	एनो नेल्सन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	31.05.2008
7.	मुनिकगम्मा एस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	31.05.2008
8.	अब्राहम पी के	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	31.05.2008
9.	महाजन आर सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	31.05.2008
10.	टी एस पार्थसारथी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	30.06.2008

के. एस. रामचन्द्रा, उप-सचिव

सं. 5/1(1)/2008-1--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिए गए पद और प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह से अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यभार छोड़ने की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	श्रीनिवासमूर्ति एन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	30.06.2007
2.	आर शेषय्या	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	31.08.2007
3.	गुप्ता जे पी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	30.06.2007
4.	सुधीर माधव ब्रेडेकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	30.06.2007
5.	एल ए जयरज	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस एफ	31.08.2007
6.	सी के वैकटपतय्या	क्रय व बंधन अधिकारी	30.09.2007

कै. एस. रामचन्द्रा, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2008-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्रीमती उषा जी को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी के पद पर अस्थायी रूप से दिनांक 23.05.2008 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

कै. एस. रामचन्द्रा, उप सचिव

सं. 5/1(1)/2008-1--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने स्वेच्छिक रूप से सेवा निवृत्ति के स्वीकार होने के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के अपराह से कार्यभार छोड़ दिया है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	डॉ रवीन्द्र धावू दी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	19.05.2008
2.	डॉ आन्ना वेकटेश्वरलु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	07.05.2008
3.	मुरलीकृष्ण पी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	02.07.2008
4.	बालसुब्रमणियन वी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	16.04.2008

कै. एस. रामचन्द्रा, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2008-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह से स्वीकार करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	त्यागपत्र की तिथि
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	वेंकट रेड्डी सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	03.05.2008
2.	बाणी सतीश चन्द्र सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	02.05.2008

1	2	3	4
3.	प्रसेन सुजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	09.05.2008
4.	अनिश बेकाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	30.06.2008
5.	रम आर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	04.07.2008
6.	अनुपम दत्त	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	25.06.2008
7.	नितिन मोहन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	03.07.2008

कै. एस. रामचन्द्रा, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2008-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री ए एक्स मार्टिन को लेखा अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से दिनांक 25.06.2008 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

कै. एस. रामचन्द्रा, उप सचिव

#### भारत निर्वाचन आयोग का सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 जुलाई 2008

सं. ए-19/जी-ए/84--आयोग की दिनांक 18 जनवरी, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 14 जुलाई, 2008 को संदर्भ संख्या 15/8/2008-ई ओ (एस एम आई) के अनुसरण में, डॉ. मृत्युन्जय सारंगी, आई.ए.एस. (टी एन : 77), जो दिनांक 14 जुलाई, 2008 की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की उमो संदर्भ संख्या के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में दिनांक 01.06.2008 से 14.07.2008 तक अतिरिक्त प्रतीक्षा पर थे, को दिनांक 14.07.2008 (अपराह) से भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय से भार मुक्त कर दिया गया है ताकि वे मंत्रिमण्डल सचिवालय में अपर सचिव के रूप में कार्य ग्रहण कर सकें।

आदेश सं.

एस. आर. कार, अपर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जुलाई 2008

सं. 14016/1/2008 यूटीएस-11--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली की पुलिस सेवा (दानिप्स) में दो वर्ष की परीचीक्षा अवधि के लिए

6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में प्रविष्टि ग्रेड में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं:-

क्र. अधिकारी का नाम सं.	रेन्ज संख्या	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1. श्री राजेश्वर कुमार	डी-1/845	25.09.1949
2. रमेश कुमार मलिक	डी-1/1014	07.01.1953
3. चन्द्रपाल सिंह राठी	डी-1/236	08.07.1950
4. वीरेन्द्र सिंह	डी-1/219	10.07.1950
5. मोहन सिंह	डी-1/301	05.09.1957
6. ओम प्रकाश	डी-1/357	19.07.1952
7. नन्द किशोर भीष्ण	डी-1/346	12.08.1957
8. सुखवीर सिंह	डी-1/672	27.03.1955
9. जवाहर सिंह	डी-1/379	15.05.1949
10. जगदीश प्रसाद	डी-1/19	01.01.1950
11. हरपाल सिंह	डी-1/718	26.01.1950

2. दानिष् के प्रविष्टि ग्रेड में ऊपर उल्लिखित ग्यारह अधिकारियों की नियुक्ति मातृनीय न्यायालय दिल्ली के सी डब्ल्यू पी सं. 4210/2007-जगदीश चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य और सी डब्ल्यू पी सं. 11356-62/2006-जे. के. जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के परिणाम के अधीन होगी।

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

#### राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2008

सं. 14034/8/2008-रा.भा.(प्रशि.)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुसंसा के फलस्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना में श्री रामजीमल, सहायक निदेशक (हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि) को हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में उप निदेशक (हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि) के पद पर रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में, पदोन्नति पर, दिनांक 1 जुलाई, 2008 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, अवर सचिव

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 मई 2008

सं. 23/21/2008-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री बिमल कुमार को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में 01 मई, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों

तक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में अवर सचिव (तदर्थ) नियुक्त करते हैं।

ए. अशोली चलाई, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2008

सं. 13017/32/2008-अ.भा.से.(I)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मणिपुर-त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड सरकारों की सहमति से, सुश्री निधि मणि त्रिपाठी, भा.प्र.से. (एम टी: 01) को मणिपुर-त्रिपुरा के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से उत्तराखण्ड के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में दिनांक 15.05.2008 से दो वर्ष की अगली अवधि के लिए सी गई अंतः संवर्ग प्रतिनियुक्ति को बढाने हेतु एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

एस. जे. कुमार, उप सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2008

सं. 13017/01/2008-ए.आई.एस.(I)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय तथा उत्तराखण्ड सरकार की सहमति से, श्री नीरज सेमवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए.जी.एस.यू.टी.: 03) को ए.जी.एस.यू.टी. संवर्ग से उत्तराखण्ड संवर्ग में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अन्तःसंवर्ग प्रतिनियुक्ति का एतद्वारा अनुमोदन करती है।

एस. जे. कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2008

सं. 14015/01/2005-अ.भा.से.(I)क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंध्र प्रदेश संवर्ग की 05 (पांच) रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 28 मई, 2008 को आयोजित बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार की गई आन्ध्र प्रदेश की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों वाली वर्ष 2005 की प्रवर सूची दिनांक 16 जुलाई, 2008 को अनुमोदित कर दी है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
1.	जी.एस.आर. के.आर. विजय कुमार (एस.सी.)	14.11.1962
2.	के. एस. श्रीनिवास राजु	02.04.1965
3.	के. आर. बी. एच. एन. बक्रवती	01.07.1965

1	2	3
4. जी. किशन		07.04.1962
5. एम. गिरीजा शंकर		30.08.1964

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/01/2005-अ.भा.से.-I(1)ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2005 की रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के तहत उन्हें आन्ध्र प्रदेश संवर्ग में आवंटित करते हैं:--

क्रम	अधिकारी का नाम
सं.	
	स्वर्श्री
1.	जी. एस. आर. के. आर. विजयकुमार (एस. सी.)
2.	के. एस. श्रीनिवास राजु
3.	के. आर. बी. एच. एन. चक्रवर्ती
4.	जी. किशन
5.	एम. गिरीजा शंकर

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2008

सं.-14013/03/2008-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य संवर्ग के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री के. अमरनारायणा को दिनांक 08 अगस्त, 2003 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

सं.-14013/05/2008-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

क्र.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री पी. जी. गिल्लरं	1996	06.06.2006
2.	श्री राजकुमार पाठक	1996	06.06.2006

1	2	3	4
3.	श्री जगदीश शर्मा	1996	06.06.2006
4.	श्रीमती मधु खरे	1997	06.06.2006
5.	श्री जी. पी. श्रीवास्तव	1997	06.06.2006
6.	श्री राम अवतार खण्डेलवाल	1997	09.12.2006
7.	श्री सुरेन्द्र नारायण शर्मा	1997	09.12.2006
8.	श्रीमती गीता मिश्रा	1997	09.12.2006
9.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	1998	13.04.2007

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

सं.-14012/05/2008 अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ए. जी. एम. यू. टी. संवर्ग के 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री संजय गोयल को दिनांक 06.09.2006 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2008

सं. ए-12011/8/2007/प्रशा.-II--इस विभाग की दिनांक 22.04.2008 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में तदर्थ नियुक्ति को 31.12.2008 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:--

क्रम	अधिकारी का नाम	चयन सूची/वर्ष
सं.		
1	2	3
1.	चिन्मय गुप्ता	414/89
2.	आर. पी. शर्मा	419/89
3.	जसमाल सिंह	415/89
4.	ओ. पी. सेनी	567/89
5.	श्रीमती विभा सक्सेना	407/89
6.	सुरजीत घोष	8/90
7.	विश्वजीत गुहा	11/90
8.	अशोक कुमार मिश्रा	67/90
9.	अरविन्द ठाकुर	102/90

1	2	3
10.	सुश्री सार्वजनी रलहन	303/90
11.	एच. के. मिसल	316/90
12.	ओम वीर सिंह निर्भय	164/94
13.	प्रीत पाल सिंह ओबराय	306/90
14.	सुश्री पुष्पा धवन	307/90
15.	इन्द्र मोहन सिंह	308/90
16.	जसपाल सिंह यादव	171/94
17.	एस. के. नथ्वर	313/90
18.	सुश्री सुनीता शर्मा	314/90
19.	अजय कुमार साहनी	122/90
20.	श्रीमती सी. पी. भारवाह (30.11.08 को सेवानिवृत्त हो रही हैं)	94/90
21.	एस. के. दरगन	164/91
22.	सुश्री सीमा कुमारी चौपड़ा	
23.	श्रीमती रीता सचदेवा	323/94
24.	श्रीमती कौशल्या गर्ग	173/91
25.	श्रीमती भीमा राम (31.07.08 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं)	340/90 (अ.जा.)
26.	श्रीमती ट्रेसी जेम्स	118/94 (अ.ज.जा.)
27.	सुश्री मंजीत कौर	317/90
28.	बी. एस. सीनी	318/90
29.	सुश्री किरण मेरा	319/90
30.	सुश्री हेमलता होतचंदानी	320/90
31.	लाल पी. रामनानी	321/90
32.	राकेश भारद्वाज	324/90
33.	राकेश भारती	328/90
34.	परोश मालाकर	249/90 (अ.जा.)
35.	सुश्री सरला अग्रवाल	337/90 (अ.जा.)
36.	हरनाम सिंह	182/91 (अ.जा.)
37.	के. डी. शर्मा	169/91
38.	कैलाश चौपड़ा	126/91
39.	बाबू लाल बैरवा	345/90
40.	श्रीमती सविता शर्मा	335/90
41.	श्रीमती कौशल्या	342/90 (अ.जा.)

1	2	3
42.	सुश्री सेलिना कुजूर	193/94 (अ.ज.जा.)
43.	वाई. वाई. पराते	249/95 (अ.ज.जा.)
44.	वी. के. सिक्का	165/91
45.	जी. डी. गुप्ता	172/91
46.	श्रीमती स्वर्ण रुद्र	165/94

2. इस तदर्थ नियुक्ति से अधिकारियों को अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने का या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने का या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में चरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. यह तदर्थ नियुक्ति तब तक चलती रहेगी जब तक कि चरिष्ठता कोय या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के जरिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें ऐसे नियमित अधिकारी उपलब्ध होने पर इस विभाग द्वारा उन्हें आबंटित उनके संबंधित संवर्ग में उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी) द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

जी. रामकुमार, अवर सचिव

#### वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2008

सं. ए-19011/286/2008-स्था.--राष्ट्रपति सुश्री सुरिंदर कौर, अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, को 23 जुलाई, 2008 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेश होने तक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में, पूर्णतः तदर्थ आधार पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

उक्त तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन होगी:--

(i) इस तदर्थ नियुक्ति से, उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चितकाल के लिये बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड-I में चरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) यह तदर्थ नियुक्ति, इस संबंध में बिना कोई कारण बताएं, किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

(iii) उन्हें दो वर्ष के अंदर केन्द्रीय सचिवालय सेवा का 'ब' स्तर का प्रशिक्षण लेना और सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

बलराम, अवर सचिव

#### व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2008

सं. ए-11019/2/2008-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री गजेश कुमार भल्ला को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में 14.03.2008 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक प्रत्यान

महालेखापाल (लेखा-परीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला कार्यालय में कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. प्रेम आनन्द, अवर सचिव

सं. ए-11019/2/2008-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री विष्णु भजुमदार को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में 31.03.2008 (पूर्वाह) से तथा अगले आदेशों तक प्रधान महालेखापाल (लेखा-परीक्षा), मेघालय, शिलाँग कार्यालय में कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. प्रेम आनन्द, अवर सचिव

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2008

सं. ए-11011/1/08-प्रशा.-I--राष्ट्रपति कारपोरेट कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी एस एस एस) के 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान पर प्रमुख निजी सचिव का एक पद एवं 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान पर एक वैयक्तिक सहायक के पद का सृजन पदस्थ के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से करते हैं।

आर. सी. टली, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जुलाई 2008

सं. ए-12023/16/2006-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति, श्री रणजय सिंह (आई आर एस : 1985) को डी जी आई एण्ड आर के कार्यालय में दिनांक 18 जून, 2008 के पूर्वाह से 5 वर्ष की अवधि तक या उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या डी जी आई एण्ड आर के बंद हो जाने तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति पर महानिदेशक, जाँच एवं पंजीकरण के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. सी. प्रतिहारी, अवर सचिव

#### पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2008

सं. ए-12011/6/2008-स्थापना--पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री ए. के. जैन, भा.प्र.से. (म. प्र. : 86) को उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के समाप्त होने पर दिनांक 30 जून, 2008 के पूर्वाह से इस मंत्रालय से कार्यमुक्त किया जाता है। उनको अपने मूल संवर्ग, मध्य प्रदेश सरकार को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

#### रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

##### रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

नई दिल्ली 110001, दिनांक 29 जुलाई 2008

सं. ए-12011/05/2004-स्थापना(एनपीओए)--राष्ट्रपति जी, श्री के. के. जैन, उप निदेशक (तकनीकी) को 12,000-375-16,500/- रुपये के

वेतनमान में दिनांक 30.06.2008 की अपराह से छः माह की अवधि के लिए निदेशक (प्रबोधन एवं प्रणाली) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

सलिल मोहन कौशल, निदेशक (प्रशासन)

#### इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2008

सं. 2(4)/2006-स्थापना--इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री राम किशोर को राष्ट्रपति दिनांक 16.07.2008 (पूर्वाह) से 17.09.2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर होगी:--

इस नियुक्ति से उन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

तदर्थ आधार पर उनकी नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

जी. वैधीश्वरन, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2008

सं. 2(4)/2008-स्थापना--राष्ट्रपति योजना आयोग में उप सचिव के पद पर कार्य कर रहे श्री रुचिन्द्र सिंह, आईएएस (एमएच: 96) को दिनांक 21.07.2008 (अपराह) से 09.10.2012 तक की अवधि अर्थात् सहस्रवर्षा आधार पर सात वर्षों की संयुक्त केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अथवा माननीय इस्पात राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, माननीय इस्पात राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), इस्पात मंत्रालय के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. वैधीश्वरन, अवर सचिव

#### खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2008

सं. पी-1/450/2006-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2007-सी एस-11 के अनुसरण में, खान मंत्रालय के संवर्ग में श्री देवेन्द्र प्रसाद और अरविन्दर सिंह, प्रधान निजी सचिवों के संबंध में सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति की 31.12.2008 तक और आगे की अवधि के लिए अथवा नियमित पीपीएस के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कहा जाता है।

2. पीपीएस के पदों पर श्री देवेन्द्र प्रसाद और श्री अरविन्दर सिंह को तदर्थ पदोन्नति को जारी रखना: पूर्णतया तदर्थ स्वरूप का है और ये उनकी

अनिश्चितकाल तक पद पर बने रहने अथवा सीएसएसएस के पीपीएस के पद पर वरिष्ठता के दावे का कोई अधिकार नहीं देगी।

प्रमोद चंद, अवर सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2008

सं. पी-1/461/2008-स्था.--राष्ट्रपति, श्री शान्तनु कंसल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कर्नाटक : 74) को 21 जुलाई, 2008 (पूर्वाह्न) से सचिव, खान मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रमोद चंद, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 25 जून 2008

सं. ए-19011/06/2008--राष्ट्रपति, अतिसूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव श्री दिनेश राय, भा.प्र.से. (उ.प्र. : 74) को दिनांक 23.06.2008 (पूर्वाह्न) से तीन महीनों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपते हैं।

श्री दिनेश राय, सचिव, अतिसूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 23.06.2008 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. के. मोहन्ती, अवर सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2008

सं. ए-19011/09/2008-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती विनोद कोतवाल, आई.पी.एंड टी.ए. एंड एफ.एस. (94) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.06.2008 के आदेश सं. 09/03/2008 ईओ (एम.एस.-1) की शर्तों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उक्त नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, चार वर्षों की अवधि के लिए है।

श्रीमती विनोद कोतवाल, आई.पी. एंड टी.ए. एंड एफ.एस. (94) ने 14.07.2008 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में उप सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. के. मोहन्ती, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2008

सं. ए-19011/10/2008-(प्रशा.)--राष्ट्रपति श्री एस. के. नन्दा को 18.07.2008 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव (के.स.स. का ग्रेड-1) के रूप में नियुक्त करते हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.06.2008 के आदेश संख्या 5/1/2008 सी एस-1(डेस्क) की शर्तों के अनुसार, यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी:--

- (1) उक्त तदर्थ फ़दोनति इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।

- (ii) उक्त तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

एस. के. मोहन्ती, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 23 जून 2008

सं. ए-19013/03/98-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'एफ', डा. के. के. द्विवेदी को नमनीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने फ़दोनति पर 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'जी' के रूप में 05.10.2006 से जैसे कि मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित है, सैद्धांतिक आधार पर तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं, वेतनमान के वित्तीय लाभ 09.06.2008 से अर्थात् जिस तारीख से भारतीय दूतावास, वाशिंगटन, में प्रतिनियुक्ति आधार पर वैज्ञानिक अताशे के पद से प्रत्यावर्तन के पश्चात्, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली में वैज्ञानिक 'जी' का कार्यभार ग्रहण किया है, से लागू होंगे।

कृष्ण दत्त, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 9 जुलाई 2008

सं. ए-12023/02/07-प्रशा.1(ए)--इस विभाग की दिनांक 16.01.2008 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.2008 के कार्यलय द्वापन सं. 5/8/2006-सी.एस.-II के अनुसरण में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित वैयक्तिक सहायकों की आगामी छह मास की अवधि के लिए 31.12.2008 तक अथवा नियमित केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में आशुलिपिक ग्रेड 'ए' एण्ड 'बी' (विलयित) के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो सहर्ष तदर्थ नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं:--

सर्वश्री

1. राम प्रकाश
2. विजय नाथ
3. एस. वी. मोहन
4. जितेन्द्र प्रभाकर, डीबीटी
5. तेजपाल सिंह सहरावत
6. श्रीमती सरोजिनी दत्त, डीएसआईआर
7. अनिल कुकरेती, डीबीटी
8. श्रीमती मधु सूर्या
9. राजेश चांदवानी, डीबीटी
10. के. जयरामन
11. एम. के. जैन
12. श्रीमती नवदीप कालिया

13. संजय कुमार डोभाल, डीबीटी

14. डी. आर. मिश्रा

15. श्रीमती रश्मि हुसैन

2. यह तदर्थ नियुक्ति उसी ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने अथवा चयन सूची में नियमित नियुक्ति के लिए सम्मिलित किये जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में आशुलिपिक ग्रेड 'ए एण्ड बी' (विलयित) (निजी सचिव) के ग्रेड में घरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 जुलाई 2008

सं. 17016/24/2000-आई एफ एस-II( )--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार झारखंड और राजस्थान सरकार को सहमति से श्री अनूप के आर, आई एफ एस (जे एच के : 2005) को झारखंड संवर्ग से राजस्थान संवर्ग में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करती है।

ए. के. लाल, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 जून 2008

सं. ए-19011/10/2008-आईएफएस-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के झारखंड संवर्ग के 1985 बैच के अधिकारी श्री बाई. के. एस. चौहान को 5 मई 2008 के पूर्वाह्न से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ में वन संरक्षक के पद पर 5 वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

कमल किशोर, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 7 जुलाई 2008

सं. ए-22012/3/2008-स्था.-III--स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 25.04.2008 के आदेश संख्या 32012/01/2007-सी एच एस-IV के तहत 14,300-18,300/- रुपये के वेतनमान में विशेष ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नत किए जाने के परिणामस्वरूप डॉ. (सुश्री) संध्या काबरा ने दिनांक 22.06.2008 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद पर अपना कार्यभार संचालित किया है।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 28 जुलाई 2008

सं. ए-12025/111/2005-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. धीरेन्द्र कुमार वर्मा को 30.05.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. धीरेन्द्र कुमार वर्मा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डा. धीरेन्द्र कुमार वर्मा दो वर्षों तक परीक्षाएँ पर रहेंगे।

श्रीमती माध प्रकाश, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 मई 2008

सं. 1-32/2002-एसपीजी--सुश्री के. नूरजहाँ (भारतीय डाक सेवा-1971), सदस्य, डाक सेवा बोर्ड 31.05.2008 (अपराह्न) से अधिवर्षिता पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रही हैं।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2008

सं. ई(ओ)III-2008/आर एन/19-आर सी आई एल में स्थायी सप्ताह होने के परिणामस्वरूप, श्री आर. के. मित्रा, भार.रे.से. ने 09.05.2005 (पूर्वाह्न) से रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव और पदेन अपर सचिव

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2008

सं. ए-22012/1/2005-ई II(बी)--राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 01.01.2008 और 29.05.2008 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के अनुक्रम में प्रधान निजी सचिव श्री आर. एल. आहुजा और श्री प्रेमपाल को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि दिनांक 31.12.2008 तक अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

के. एस. राव, अवर सचिव

पोत-परिवहन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2008

सं. ए-12025/8/05-एम ए- राष्ट्रपति, नौवहन महानिदेशालय में कार्य कर रहे डॉ. पी. मिश्रा, उप मुख्य सर्वेक्षक को दिनांक 08.07.2008 (पूर्वाह्न) से तथा इस मामले में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों पर निर्णय आने की शर्त पर अगले आदेशों तक नौवहन महानिदेशालय, मुंबई में 18,400-22,400/- रुपये के वेतनमान में प्रधान अधिकारी (इंजीनियरिंग) के पद पर नियुक्त करते हैं।

रघुनाथ त्रिपाठी, उप सचिव

सं. ए-12025/8/05-एम ए- राष्ट्रपति, नौवहन महानिदेशालय में कार्य कर रहे श्री ए. बनर्जी, उप मुख्य सर्वेक्षक को दिनांक 08.07.2008 (पूर्वाह्न) से तथा इस मामले में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों पर निर्णय आने की शर्त पर अगले आदेशों तक नौवहन महानिदेशालय, मुंबई में 18,400-22,400/- रुपये के वेतनमान में प्रधान अधिकारी (इंजीनियरिंग) के पद पर नियुक्त करते हैं।

रघुनाथ त्रिपाठी, उप सचिव

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 25th July 2008

No. RS/4(51)/2008/43-Perf.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Rahul Naresh Joshi as a temporary Junior Parliamentary Interpreter (Gujarati) in the Rajya Sabha Secretariat, in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- plus usual allowances admissible under the rules, with effect from the forenoon of 25th July, 2008, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Dir.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 21st July 2008

No. 5/1(1)/2008-I.—Consequent on attaining the age of superannuation, the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Dr. Shankara K. N.	Distinguished Scientist/Director	31.05.2008
2.	Nataraju B. S.	Scientist/Engineer-G	30.04.2008
3.	Venkataramanan S. T.	Scientist/Engineer-G	30.04.2008
4.	Mallikarjuna Rao D.	Scientist/Engineer-G	30.04.2008
5.	Rama Rao H. S.	Scientist/Engineer-SG	30.06.2008
6.	Adnie Nelson	Scientist/Engineer-SG	31.05.2008
7.	Muninagappa M.	Scientist/Engineer-SF	31.05.2008
8.	Abraham P. K.	Scientist/Engineer-SF	31.05.2008
9.	Mahajan R. C.	Scientist/Engineer-SE	31.05.2008
10.	T. S. Parthasarathy	Scientist/Engineer-SC	30.06.2008

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—Consequent on attaining the age of superannuation, the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Srinivasamurthy N.	Scientist/Engineer-H	30.06.2007
2.	R. Seshiah	Scientist/Engineer-H	31.08.2007
3.	Gupta J. P.	Scientist/Engineer-G	30.06.2007
4.	Sudhir Madhava Bedekar	Scientist/Engineer-G	30.06.2007
5.	L. A. Jayaraj	Scientist/Engineer-SF	31.08.2007
6.	C. K. Venkatapathaiah	Purchase&Stores Officer	30.09.2007

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint Smt. Usha G. as Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 23.05.2008 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—Consequent on acceptance of Voluntary Retirement the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post mentioned against each with effect from the afternoon of the date mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Dr. Ravindra Babu T.	Scientist/Engineer-SG	19.05.2008
2.	Dr. Andra Venkateswarlu	Scientist/Engineer-SG	07.05.2008
3.	Muralikrishna P.	Scientist/Engineer-SE	02.07.2008
4.	Balasubramanian V.	Scientist/Engineer-SC	16.04.2008

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(2)/2008-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of resignation
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Venkata Reddy V.	Scientist/Engineer-SE	09.05.2008
2.	Wani Satishchandra C.	Scientist/Engineer-SD	02.05.2008
3.	Prasob Sunny	Scientist/Engineer-SC	09.05.2008
4.	Anish Bekal	Scientist/Engineer-SC	30.06.2008
5.	Ram R.	Scientist/Engineer-SC	04.07.2008
6.	Anupam Datta	Scientist/Engineer-SC	25.06.2008
7.	Nitin Mohan	Scientist/Engineer-SC	03.07.2008

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 5/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint Shri A. X. Martin as Accounts Officer in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 25.06.2008 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

# SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 22nd July 2008

No. A-19/G-A/84/2285.—In continuation of the Commission's Notification of even number dated 18th January, 2008 and in pursuance of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training's reference No. 15/8/2008-EO(SM. I), dated 14th July, 2008, Dr. Mrutyunjay Sarangi, IAS (TN : 77), who, as per the same DOPT reference dated 14th July, 2008, was on compulsory wait in the Secretariat of the Election Commission of India for the period with effect from 01.06.2008 to 14.07.2008 is relieved from the Secretariat of the Election Commission of India with effect from 14.07.2008 (AN), to enable him to join as Additional Secretary in the Cabinet Secretariat.

By order

S. R. KAR, Under Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 3rd July 2008

No. 14016/1/2008-UTS-II.—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with immediate effect:—

Sl. No.	Name of the officer	Range No.	Date of Birth
	(S/Shri)		
1.	Rajeshwar Kumar	D-1/845	25.09.1949
2.	Ramesh Kumar Malik	D-1/1014	07.01.1953
3.	Chander Pal Singh Rathi	D-1/236	08.07.1950
4.	Virender Singh	D-1/219	10.07.1950
5.	Mohan Singh	D-1/301	05.09.1957
6.	Om Parkash	D-1/357	19.07.1952
7.	Nand Kishore Meena	D-1/346	12.08.1957
8.	Sukhbir Singh	D-1/672	27.03.1955
9.	Jawahar Singh	D-1/379	15.05.1949
10.	Jagdish Prasad	D-1/19	01.01.1950
11.	Harpal Singh	D-1/718	26.01.1950

2. The appointment of the abovementioned 11 Inspectors into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007-Jagdish Chand Vs. Union of India

and Anr. and CWP No. 11356-62/2006-J.K. Jain & Ors. Vs. UOI & Ors. in the Hon'ble High Court of Delhi.

J. K. SINGH, Desk Officer

## DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 28th July 2008

No. 14034/8/2008-OI. (Trg.).—The President, on the recommendation of the Union Public Service Commission, is pleased to appoint Shri Ramji Mal, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, as Deputy Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on promotion, with effect from the forenoon of 1st July 2008.

VIJAY KUMAR GUPTA, Under Secy.

## MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 7th May, 2008

No. 23/21/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Bimal Kumar, as Under Secretary (ad-hoc), in the Ministry of Development of North Eastern Region with effect the forenoon of 1st May, 2008 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- until further orders.

A. ASHOLI CHALAI, Dy. Secy.

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

### (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 8th July 2008

No. 13017/32/2008-AIS (I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Manipur-Tripura and Uttarakhand, the Central Government hereby accords approval for the extension of the inter cadre deputation of Ms. Nidhi Mani Tripathi, IAS (MT : 01) from the IAS cadre of Manipur-Tripura to the IAS cadre of Uttarakhand for a further period of two years, w.e.f. 15.05.2008.

S. J. KUMAR, Dy. Secy.

The 23rd July 2008

No. 13017/01 2008-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Ministry of Home Affairs and the Government of Uttarakhand the Central Government hereby accords approval for the inter

cadre deputation of Shri Neeraj Semwal, IAS (AGMUT : 03) from AGMUT cadre to Uttarakhand cadre for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

S. J. KUMAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 21st July 2008

No. 14015/01/2005-AIS (I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2005 on 16th July, 2008 containing the names of the following members of the State Civil Service of Andhra Pradesh Cadre, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 28th May 2008, towards filling up 05 vacancies in the Indian Administrative Service, Andhra Pradesh Cadre :—

SELECT LIST 2005

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	G.S.R.K.R. Vijay Kumar (SC)	14.11.1962
2.	K. S. Sreenivasa Raju	02.04.1965
3.	K.R.B.H.N. Chakravarthy	01.07.1965
4.	G. Kishan	07.04.1962
5.	M. Girija Shankar	30.08.1964

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/01/2005-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Andhra Pradesh Cadre to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2005 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Andhra Pradesh Cadre, under Sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.	G.S.R.K.R. Vijay Kumar (SC)
2.	K. S. Sreenivasa Raju
3.	K.R.B.H.N. Chakravarthy
4.	G. Kishan
5.	M. Girija Shankar

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 25th July 2008

No. 14013/03/2008-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by Rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri K. Amaranarayana, a member of the Indian Administrative Service, borne on the State Cadre of Karnataka of 1996 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 8th August, 2003.

G. C. PANDEY, Under Secy.

No. 14013/05/2008-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Madhya Pradesh, with effect from the dates shown against them :

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Sh. P. G. Gillore	1996	06.06.2006
2.	Sh. Raj Kumar Pathak	1996	06.06.2006
3.	Sh. Jagdish Sharma	1996	06.06.2006
4.	Smt. Madhu Khare	1997	06.06.2006
5.	Sh. G. P. Srivastava	1997	06.06.2006
6.	Sh. Ram Avtar Khandelwal	1997	09.12.2006
7.	Sh. Surendra Narayan Sharma	1997	09.12.2006
8.	Smt. Gita Mishra	1997	09.12.2006
9.	Sh. Rajendra Kumar Sharma	1998	13.04.2007

G. C. PANDEY, Under Secy.

No. 14012/05/2008-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by Rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Sanjay Goel, a member of the Indian Administrative Service, borne on the AGMUT Cadre of 2004 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 6.9.2006.

G. C. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 21st July 2008

No. A-12011/8/2007-Admn. II.—In continuation to this Department's Notification of even number dated 22.4.2008, the President is pleased to continue the ad-hoc appointment of the following Section Officers upto 31.12.2008 or till the

regular incumbents become available, whichever is earlier, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs :—

Sl. No.	Name of Officers	Select List/year
1	2	3
	(S/Shri)	
1.	Chinmoy Gupta	414/89
2.	R. P. Sharma	419/89
3.	Jasmal Singh	415/89
4.	O. P. Saini	567/89
5.	Smt. Vibha Saxena	407/89
6.	Surojit Ghosh	8/90
7.	Biswajit Guha	11/90
8.	Ashok Kumar Singh	67/90
9.	Aravind Thakur	102/90
10.	Smt. Santhona Rahlan	303/90
11.	H. K. Mittal	316/90
12.	Om Vir Singh Nirbhay	164/94
13.	Prit Pal Singh Oberoi	306/90
14.	Smt. Pushpa Dhawan	307/90
15.	Inder Mohan Singh	308/90
16.	Jaspal Singh Yadav	171/94
17.	S. K. Nayyar	313/90
18.	Smt. Sunita Sharma	314/90
19.	Ajay Kumar Sawlney	122/90
20.	Smt. C. P. Marwah (retiring on 30.11.08)	94/90
21.	S. K. Dargan	164/91
22.	Ms. Meena Kumari Chopra	
23.	Smt. Rita Sachdeva	323/94
24.	Smt. Kausalya Garg	173/91
25.	Bhima Ram (retiring on 31.7.08)	340/90 (NC)
26.	Smt. Gracy James	118/94 (ST)
27.	Smt. Manjit Kaur	317/90
28.	B. S. Saini	318/90
29.	Smt. Kiran Gera	319/90
30.	Smt. Hemlata Hotchandani	320/90
31.	Lal P. Ramanani	321/90
32.	Rakesh Bhardwaj	324/90

1	2	3
	(S/Shri)	
33.	Rakesh Bharti	328/90
34.	Pareesh Malakar	249/90 (SC)
35.	Ms. Sarla Agarwal	337/90 (SC)
36.	Harnam Singh	182/91 (SC)
37.	K. D. Sharma	169/91
38.	Kailash Chopra	126/91
39.	Babu Lal Bairwa	345/90
40.	Smt. Savita Sharma	335/90
41.	Smt. Kausalya	342/90 (SC)
42.	Ms. Celina Kujur	193/94 (ST)
43.	Y. Y. Parate	249/95 (ST)
44.	V. K. Sikka	165/91
45.	B. D. Gupta	172/91
46.	Smt. Swaran Rudra	165/94

2. The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade of CSS.

3. Ad-hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officers Grade are available either through Seniority quota of Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre allotted to them by this Department.

V. RAMKUMAR, Under Secy

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 24th July 2008

No. A-19011/286-2008-1st. —The President is pleased to appoint Ms. Surinder Kaur, Section Officer of CSS in UPSC to the Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on an ad-hoc basis in Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 23rd July, 2008 and until further orders.

2. The ad-hoc appointment will be subject to the following terms and conditions :—

- The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.

- (ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) She shall require to undergo and successfully complete the level 'D' Training of the CSS within a period of two years.

BAL RAM, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 23rd July 2008

No. A-11019/2/2008-EG.—The President is pleased to appoint Shri Gajesh Kumar Bhalla of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Pr. Accountant General (Audit), Himachal Pradesh, Shimla in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 14.3.2008 (FN) and until further orders.

R. PREM ANAND, Under Secy.

No. A-11019/2/2008-EG.—The President is pleased to appoint Shri Bishnu Mazumdar of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Pr. Accountant General (Audit), Meghalaya, Shillong in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 31.3.2008 (FN) and until further orders.

R. PREM ANAND, Under Secy.

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 8th July 2008

No. A-11011/1/08-Ad. I.—The President is pleased to create one post of Principal Private Secretary in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- and one post of Personal Assistant in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- of the Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the Ministry of Corporate Affairs with effect from the date incumbents take over the charge of the posts.

R. C. TULLY, Under Secy.

New Delhi-110001, the 3rd July 2008

No. A-12023/16/2006-Ad. IV.—The President is pleased to appoint Shri Rananjay Singh, (IRS : 1985) as Director General, Investigation & Registration, in the office of the DGI&R, on deputation, in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/-, with effect from the forenoon of June 18, 2008 for a period of 5 years or till he attains the age of 60 years or till the winding up of DGI&R, whichever event takes place at the earliest.

P. C. PRATIHARI, Under Secy.

#### MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 11th July 2008

No. A-12011/6/2008-Estt.—On completion of his Central Deputation Tenure, Shri A. K. Jain, [IAS (MP : 86)], Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas is relieved of his duties in the Ministry with effect from the forenoon of 30th June, 2008. He is directed to report to his parent cadre, Government of Madhya Pradesh.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

New Delhi, the 29th July 2008

No. 12011/5/2004-Estt. (NPPA).—The President is pleased to promote Shri K. K. Jain, Deputy Director (Technical) to the post of Director (Monitoring & System) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- for a period of six months w.e.f. 30.06.2008 (AN).

L. M. KAUSHAL, Dir. (Admn.)

#### MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 16th July 2008

No. 2(4)/2006-Estt.—The President is pleased to appoint on ad-hoc basis Shri Ram Kishore, Assistant of CSS cadre of Ministry of Steel as Section Officer in the CSS cadre of Ministry of Steel w.e.f. 16.7.2008 (FN) to 17.9.2008 or until further orders whichever is earlier.

The ad-hoc appointment will be subject to the following conditions :—

It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS; and

The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

RAKESH BHATNAGAR, Under Secy.

New Delhi-110107, the 22nd July 2008

No. 2(4)/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rupinder Singh, IAS (MH : 96), till recently working as Deputy Secretary in Planning Commission as Private Secretary to the Hon'ble MOS (Shri Jitin Prasada), Ministry of Steel with effect from the afternoon of 21.7.2008 for a period upto 09.10.2012 i.e. the balance period under the combined Central deputation tenure of seven years on co-terminus basis or till he ceases to function as Private

Secretary to Hon'ble MOS (Steel) or until further orders, whichever event occurs the earliest.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 9th July 2008

No. P-1/450/2006-Estt.—In pursuance to DoP&T's OM No. 5/6/2007-CS. II dated 1.7.2007, the ad-hoc appointment in the grade of Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in respect of Shri Devendra Prasad and Shri Arvinder Singh, PPS in the Cadre of Ministry of Mines, is hereby extended for a further period upto 31.12.2008 or till regular PPSs become available or until further orders, whichever is earlier.

2. The continuation of ad-hoc promotion of Shri Devendra Prasad and Shri Arvinder Singh to the posts of PPS is purely ad-hoc in nature and shall not confer on them any right to continue indefinitely or to claim seniority in the post of PPS of CSSS.

PRAMOD CHAND, Under Secy.

The 21st July 2008

No. P-1/461/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Shantanu Consul, IAS (KN : 74) as Secretary, Ministry of Mines with effect from forenoon of the 21st July, 2008.

PRAMOD CHAND, Under Secy.

#### MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 25th June 2008

No. A-19011/6/2008.—The President is pleased to assign additional charge of the post of Secretary, Ministry of Food Processing Industries to Shri, Dinesh Rai, IAS (UP : 74), Secretary Ministry of Micro Small and Medium Enterprises w.e.f. 23.06.2008 (FN) for a period of three months or until further orders, whichever is earlier.

Shri Dinesh Rai, Secretary, Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, has assumed the additional charge of the post of Secretary in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 23.06.2008 (FN).

S. K. MOHANTY, Under Secy.

The 15th July 2008

No. A-19011/9/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Vinod Kotwal, IP&TA&FS (94) as Deputy Secretary in the Ministry of Food Processing Industries in terms of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 09/03/08-E.O. (MM-I) dated 10.06.2008. The appointment is for a period of four years from the date of her taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

Ms. Vinod Kotwal, IP&TA&FS (94) has assumed the charge of the post of Deputy Secretary in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 14.07.2008 (FN).

S. K. MOHANTY, Under Secy.

The 22nd July 2008

No. A-19011/10/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Nanda, as Under Secretary (Grade-I of CSS) on ad-hoc basis in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 18.07.2008 (FN).

In terms of the Department of Personnel & Training's Order No. 5/1/2008 C.S.-I (Desk) dated 20.06.2008, the appointment will be subject to the following conditions :-

1. The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
2. Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S. K. MOHANTY, Under Secy.

#### MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 23rd June 2008

No. A-19013/03/98-Admn.-I (A).—The President is pleased to appoint Dr. K. K. Dwivedi, Scientists 'F' in the Department of Science & Technology as Scientist 'G' in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- on his insitu promotion under Flexible Complementing Scheme with effect from 05.10.2006 as approved by Appointments Committee of the Cabinet, on notional basis and until further orders. The financial benefits of scale of pay will accrue w.e.f. 09.06.2008 i.e. from the date of assumption of charge of the post of Scientist 'G' in the Department of Science & Technology, New Delhi after repatriation from the post of Scientific Attache in Embassy of India, Washington on deputation basis.

KRISHNA DUTT, Under Secy.

New Delhi-110016, the 9th July 2008

No. A-12023/02.07-Admn.-I (A)—In continuation of this Department's Notification of even number dated 16.01.2008 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8-2006-CS. II dated 01.07.2008, the term of ad-hoc appointment of the following regular Personal Assistants as Steno Grade 'A&B' (merged) (PS) in the CSSS Cadre of Ministry of Science & Technology is extended for a further period of six months upto 31.12.2008.

or till regular Stenos grade 'A&B' (Merged) of CSSS become available, whichever is earlier :—

S/Shri

1. Ram Prakash
2. Brij Nath
3. S. V. Mohan
4. Jatinder Prabhakar, DBT
5. Tejpal Singh Schrawat
6. Smt. Sarojini Datta, DSIR,
7. Anil Kulkreti, DBT
8. Mrs. Madhu Surya
9. Rajesh Chandwani, DBT
10. K. Jayaraman
11. M. K. Jain
12. Mrs. Navdeep Kalia
13. Sanjay Kumar Dobhal, DBT
14. D. R. Mishra
15. Smt. Rashmi Hussain

2. The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A&B' (Merged) (PS) of CSSS.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 15th July 2008

No. 17016/24/2000-IFS-II (.).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government with the concurrence of the Government of Jharkhand and Rajasthan hereby transfer Shri Anoop K. R. IFS (JHK : 2005) from the Jharkhand Cadre to the Rajasthan Cadre of the Service with immediate effect.

A. K. LAL, Dir.

New Delhi-110003, the 26th June 2008

No. A-19011/10/2008-IFS. I—The President is pleased to appoint Shri Y. K. S. Chauhan, an officer belonging to 1985 batch of Indian Forest Service, Jharkhand Cadre, to the post of Conservator of Forests, Ministry of Environment and Forests, Regional Office (Central Region), Lucknow

w.e.f. the forenoon of 5th May, 2008 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

KAMAL KISHORE, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 7th July 2008

No. A-22012/3/2008-Estt. III.—Consequent upon her having been promoted to the post of Specialist Grade-I in the scale of pay of Rs. 14,300—18,300/- vide Ministry of Health & Family Welfare Order No. A-32012/01/2007-CHS. IV dated 25.04.2008, Dr. (Mrs.) Sandhya Kabra has assumed charge of the post of Joint Director in the National Aids Control Organisation, Ministry of Health & Family Welfare with effect from 22.06.2006 (FN).

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF HEALTH

New Delhi-110108, the 28th July 2008

No. A-12025/111/2005-CHS. I.—On the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Dheerendra Kumar Verma to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the Scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 30th May, 2007 until further orders, Dr. Dheerendra Kumar Verma is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. Dr. Dheerendra Kumar Verma shall be on probation for two years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 23rd May 2008

No. 1-32/2002-SPG—Ms. K. Noorjehan (IPoS-1971), Member, Postal Services Board is retiring on superannuation from Government service w.e.f. 31.5.2008 (AN).

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

#### MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 21st July 2008

No. E (O) III-2008/RN/19.—Consequent upon his permanent absorption in RCIL, Shri R. K. Mitra, IRAS has resigned from Railway service with effect from 09.05.2008 (FN).

MATHEW JOHN  
Secy. Railway Board &  
Ex-Officio Additional Secy.

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &  
HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 17th July 2008

No. A-22012/1/2005-E. 11 (B).—In continuation of this Deptt's Notification of even No. dated 01.01.2008 and 29.5.2008, the President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of Shri R. L. Ahuja and Shri Prem Pal Principal Private Secretaries as Sr. Principal Private Secretaries in the Deptt. of Road Transport & Highways for the period upto 31.12.2008 or till regular Sr. PPS become available or until further orders, whichever is earlier.

K. S. RAO, Under Secy.

DEPARTMENT OF SHIPPING

New Delhi, the 22nd July 2008

No. A-12025/8/05-MA.—The President is pleased to appoint Dr. P. Misra, Deputy Chief Surveyor in the

Directorate General of Shipping to the post of Principal Officer (Engineering) in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- in the Directorate General of Shipping, Mumbai with effect from 8.7.2008 (FN) and until further orders subject to the outcome of various court cases pending in the matter.

R. N. TRIPATHY, Dy. Secy.

No. A-12025/8/05-MA.—The President is pleased to appoint Shri A. Banerjee, Deputy Chief Surveyor in the Directorate General of Shipping to the post of Principal Officer (Engineering) in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- in the Directorate General of Shipping, Mumbai with effect from 8.7.2008 (FN) and until further orders subject to the outcome of various court cases pending in the matter.

R. N. TRIPATHY, Dy. Secy.